

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 9—मई 15, 2015 (वैशाख 19, 1937)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 9—MAY 15, 2015 (VAISAKHA 19, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2015

(सेना शाखा)

सं. 101, दिनांक 21 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन 05 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान वरुण कुमार (एमएस 17038-ए), आयोग की तिथि 29-12-2012 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 29-06-2012 से दी जाएगी। (इसमें गुरु नानक नेत्र केन्द्र, दिल्ली सरकार में जूनियर रेसिडेंट के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान देवत्रेय पाल (एमएस-16969-एक्स), आयोग की तिथि 21-09-2012 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 21-03-2012 से दी जाएगी। (इसमें एन आर एस मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता में हौस स्टाफ के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान रीना कुमारी (एमएस-16672डब्ल्यू), आयोग की तिथि 15-06-2010 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 15-12-2009 से दी जाएगी। (इसमें किलोस्कर मेमोरियल होस्पिटल, बंगलूरु में ड्यूटी डॉक्टर के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान गिडडी शरत बाबू (एमएस-16280-एच), आयोग की तिथि 15-09-2009 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 15-03-2009 से दी जाएगी। (इसमें पोंडिच्चेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पोंडिच्चेरी में केजुएल्टील चिकित्सक के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान नेहा रेचल बिश्वास (एमएस-16859एच), आयोग की तिथि 21-10-2011 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 21-04-2011 से दी जाएगी। (इसमें धमतरी क्रिस्टियन होस्पिटल, धमतरी, छत्तीसगढ़ में जूनियर चिकित्सक के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान दीपाराणी एस. (एमएस-16833एन), आयोग की तिथि 27.09.2011 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 27-03-2009 से दी जाएगी। (इसमें अनास्थेसिओलोजी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए एवं मेजर डी सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरुखाबाद में जूनियर रेसिडेंट के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 30 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान मनोज कुमार (एमएस-16878एन), आयोग की तिथि 01.12.2011 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01-06-2009 से दी जाएगी। (इसमें प्रसूति और स्त्री-रोग चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए एवं दिल्ली सरकार सत्यवादी राजा हरिचन्द्र अस्पताल में सीनियर रेसिडेंट के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 30 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान चन्द्रचूड मंदर विलास (एमएस17004-एम), आयोग की तिथि 06.11. 2012 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 06.11. 2009 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (कम्युनिटी मेडिसीन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान टंडेल कुंदनकुमार उत्तमभाई (एमएस-17118एक्स), आयोग की तिथि 21.09.2012 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 21.09.2009 से दी जाएगी। (इसमें महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ द्वारा प्रदान की गई स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (सूक्ष्म जीव शास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान नीरज सिंह (एमएस-16823के), आयोग की तिथि 27.09.2011 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 27.03.2008 से दी जाएगी। (इसमें शिशु रोग चिकित्सा शास्त्र में डॉक्टर ऑफ मेडिसीन के लिए एवं क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना में अस्पताल नियुक्ति के लिए 42 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट/(परख पर)

फ्ला. लेफ्टिनेंट रुद्रिका चंद्रा (एमएस-16956-ए) (एएफ-32381-ए), आयोग की तिथि 21.09.2012 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 21.09.2009 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एमएस) प्रसूति एवं स्त्री रोग चिकित्सा शास्त्र के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टिनेंट सुमन सिंह (एमएस-17035एम, 76195-डब्ल्यू), आयोग की तिथि 29.12.2012 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 29.06.2012 से दी जाएगी। (इसमें गोवा मेडिकल कॉलेज बंबोलीम, गोवा में जूनियर रेसिडेंट के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट सूदीप्ता अधिकारी (एएमएस-17026L) (76194-T), आयोग की तिथि 29.12.2012 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 29.06.2012 से दी जाएगी। इसमें सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली में जूनियर रेसिडेंट के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट अन्कुज तिन्ना (एमएस-17237एन) (76158-के), आयोग की तिथि 22.09.2012 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 22.09.2010 से दी जाएगी। नेत्र रोग विज्ञान में डिप्लोमा के लिए 24 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान सातव सुनिलकुमार रामेश्वर	एम एस-17214 एम	एएमसी	19.10.2013
कप्तान एस मोहन	एम एस-17224 डब्ल्यू	एएमसी	19.10.2013
कप्तान शशिदीप रेड्डी पि	एम एस-17230 के	एएमसी	17.12.2013
कप्तान प्रेरना बेदी	एम एस-17232 पी	एएमसी	17.12.2013
कप्तान अंशुल मुदगल	एम एस-17234 ए	एएमसी	17.12.2013
कप्तान धनंजय कुमार सिंह	एम एस-17235 एच	एएमसी	17.12.2013
कप्तान दीपक	एम एस-17236 एल	एएमसी	17.12.2013
कप्तान आकांक्षा	एम एस-17244 के	एएमसी	19.10.2013
कप्तान अमिताभ लायेक	एम एस-17245 एम	एएमसी	19.10.2013
कप्तान उपाध्ये मनोज अरुण	एम एस-17247 एक्स	एएमसी	19.10.2013
कप्तान जोसफ जोण	एम एस-17248 ए	एएमसी	19.10.2013
कप्तान ऋषि अग्रवाल	एम एस-17259 एम	एएमसी	19.10.2013
कप्तान निकित मूर्ती	एम एस-17260 एफ	एएमसी	19.10.2013
कप्तान राहुल मनराल	एम एस-17266 एच	एएमसी	17.12.2013

कप्तान अंकुर राजदान	एम एस-17267 एल	एएमसी	17.12.2013
कप्तान दीपक खत्री	एम एस-17281 एक्स	एएमसी	11.02.2014
कप्तान वरून कुमार	एम एस-17065 के	एएमसी	12.02.2013
कप्तान रुबेन बोस	एम एस-17189 वाई	एएमसी	06.08.2013
कप्तान सानन्दा रॉय	एम एस—17190 एन	एएमसी	06.08.2013
कप्तान अजय त्यागी	एम एस-17211 वाई	एएमसी	19.10.2013
कप्तान रणधीर रंजन	एम एस-17213 के	एएमसी	19.10.2013
कप्तान बसन्त सिंह	एम एस-17218 एच	एएमसी	19.10.2013
कप्तान नवीन कुमार सिंह	एम एस-17219 एल	एएमसी	19.10.2013
कप्तान वैदेही सी राजवाडकर	एम एस-17225 वाई	एएमसी	19.10.2013
कप्तान रणजोध सिंह भट्टी	एम एस-17228 एम	एएमसी	19.10.2013
कप्तान प्रवीण बजाज	एम एस-17191 डब्ल्यू	एएमसी	06.08.2013
कप्तान रीतिका दिवेस्वर	एम एस—17196 पी	एएमसी	06.08.2013
कप्तान जयन्त रस्तोगी	एम एस--17210 डब्ल्यू	एएमसी	19.10.2013
कप्तान अंकित कुमार	एम एस-17216 एक्स	एएमसी	19.10.2013
कप्तान खुशाल चन्द	एम एस--17222 एल	एएमसी	19.10.2013
कप्तान अर्जुन अंचन	एम एस--17223 एन	एएमसी	19.10.2013
कप्तान शिबानन्द मल्लिक	एम एस--17226एफ	एएमसी	19.10.2013
कप्तान धुबजित कलिता	एम एस--16204 डब्ल्यू	एएमसी	11.08.2009
कप्तान प्रिया अवस्थी	एम एस--16673 वाई	एएमसी	15.06.2010
कप्तान नितिन पाहुजा	एम एस--16961 एल	एएमसी	21.09.2012
कप्तान प्रियांका अरोरा	एम एस-17135 एक्स	एएमसी	18.04.2013
कप्तान ऋषभ सिंह	एम एस--17137 एच	एएमसी	06.08.2013
कप्तान सुनील कुमार	एम एस--17150 एम	एएमसी	06.08.2013
कप्तान श्रीनिवास गुप्ता	एम एस—17157 डब्ल्यू	एएमसी	06.08.2013
कप्तान पवन कुमार तिवारी	एम एस—17174 डब्ल्यू	एएमसी	06.08.2013
कप्तान अरविन्थन एम	एम एस--17182 पी	एएमसी	06.08.2013
कप्तान भाग्यलक्ष्मी एस	एम एस--17200 एम	एएमसी	06.08.2013

कप्तान दिबेन्दु घोष	एम एस-17067 पी	एएमसी	16.03.2013
कप्तान शिखा शर्मा	एम एस-17136 ए	एएमसी	06.08.2013
कप्तान तारावन्ती	एम एस-17161 वाई	एएमसी	06.08.2013
कप्तान संदीप ढाका	एम एस-17166 एक्स	एएमसी	06.08.2013
कप्तान विवेक कुमार गौतम	एम एस-17168 एच	एएमसी	06.08.2013
कप्तान सुमित शर्मा	एम एस-17171 एच	एएमसी	06.08.2013
कप्तान कपिल अशोक कुलकर्णी	एम एस-17172 एल	एएमसी	06.08.2013
कप्तान अंकित कुमार	एम एस-17175 वाई	एएमसी	06.08.2013
कप्तान दिपेन्द्र सिंह	एम एस-17178 एम	एएमसी	06.08.2013
कप्तान सुदीप पडीवाल	एम एस 17179 पी	एएमसी	06.08.2013
कप्तान सबरीराजन पी	एम एस 16843 एक्स	एएमसी	27.09.2011
कप्तान किरण	एम एस 16959 एन	एएमसी	21.09.2012
कप्तान के हरीष	एम एस 16965 एफ	एएमसी	21.09.2012
कप्तान बुशरा आसिमा	एम एस 16968 पी	एएमसी	21.09.2012
कप्तान मनप्रीत सिंह	एम एस 16981 वाई	एएमसी	21.09.2012
कप्तान मुल्लानी परवेज़ शब्बीर	एम एस 16993 एन	एएमसी	21.09.2012
कप्तान अभिनव पारीक	एम एस 16998 एम	एएमसी	21.09.2012
कप्तान रूपायण भट्टाचार्य	एम एस 17010 ए	एएमसी	06.11.2012
कप्तान श्रीकान्त दाधीच	एम एस 17014 डब्ल्यू	एएमसी	06.11.2012
कप्तान वंदना कुमारी	एम एस 17022 पी	एएमसी	17.11.2012
कप्तान के सुभाष	एम एस 17023 एक्स	एएमसी	17.11.2012
कप्तान अनिरुद्ध भट्टाचार्य	एम एस 17025 एच	एएमसी	17.11.2012
कप्तान आशीष गुप्ता	एम एस 17045 डब्ल्यू	एएमसी	29.12.2012
कप्तान पल्लवी वर्मा	एम एस 17049 एम	एएमसी	29.12.2012
कप्तान स्मृति गुप्ता	एम एस 17050 एफ	एएमसी	29.12.2012
कप्तान इरवन कौर	एम एस 17051 के	एएमसी	29.12.2012

कप्तान अभिनन्दन रामपाल	एम एस 17054 एक्स	एएमसी	12.02.2013
कप्तान ललित कुमार	एम एस 17056 एच	एएमसी	12.02.2013
कप्तान कुमार आदर्श	एम एस 17057एल	एएमसी	12.02.2013
कप्तान अतुल खुल्लर	एम एस 17059 डब्ल्यू	एएमसी	12.02.2013
कप्तान अजित कुमार	एम एस 17061 एन	एएमसी	12.02.2013
कप्तान वर्ड हनोक देवदास	एम एस 17069 ए	एएमसी	16.03.2013
कप्तान मनवीर सिंह	एम एस 17138 एल	एएमसी	06.08.2013
कप्तान अजय बेरीवाल	एम एस 17139 एन	एएमसी	06.08.2013
कप्तान सुषमा मनराल	एम एस 17140 एच	एएमसी	06.08.2013
कप्तान तृप्ति परंदियाल	एम एस 17141 एल	एएमसी	06.08.2013
कप्तान कीर्ति सांगवान	एम एस 17145 एफ	एएमसी	06.08.2013
कप्तान लक्ष्मी केशव सि जि	एम एस 17147एम	एएमसी	06.08.2013
कप्तान पूजा नायर	एम एस 17153 ए	एएमसी	06.08.2013
कप्तान सुरेखा यादव	एम एस 17156 एन	एएमसी	06.08.2013
कप्तान सोनाक्षी संब्याल	एम एस 17180 के	एएमसी	06.08.2013
कप्तान सुमित शर्मा	एम एस 17184 ए	एएमसी	06.08.2013
कप्तान रुचि राणा	एम एस 17186 एल	एएमसी	06.08.2013
कप्तान प्रभव छापरवाल	एम एस 17187 एन	एएमसी	06.08.2013
कप्तान जितेन्द्र कुमार तिवारी	एम एस 17188 डब्ल्यू	एएमसी	06.08.2013
कप्तान प्रभु मदभावी	एम एस 17193 एफ	एएमसी	06.08.2013
कप्तान दिपन राई	एम एस 17194 के	एएमसी	06.08.2013
कप्तान हरिप्रसाद एन	एम एस 17197 एक्स	एएमसी	06.08.2013
कप्तान विकास यादव	एम एस 17199 एच	एएमसी	06.08.2013
कप्तान अन्जु पन्नु	एम एस 17206 एन	एएमसी	13.08.2013

कप्तान शिवानी मिश्रा	एम एस 17207 डब्ल्यू	एएमसी	12.09.2013
कप्तान राघव सूदन	एम एस 17208 वाई	एएमसी	17.09.2013

राष्ट्रपति महोदय यथा संशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना
अल्पकालीन कमीशन
(सेना चिकित्सा सेवा)

फ़्लाईंग ऑफिसर के पद पर (परख पर)

फ़्लाईंग ऑफिसर गोरंग पालीवाल	एम एस-17087 एच ए एफ-32737 एफ	ए एम सी	18.03..2013
फ़्लाईंग ऑफिसर मयंक झंवर	एम एस-17089 एन ए एफ-32736 ए	ए एम सी	18.03..2013

राष्ट्रपति महोदय यथा संशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना
अल्पकालीन कमीशन
(सेना चिकित्सा सेवा)

फ़्लाइट लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परखा पर)

फ़्लाइट लेफ्टिनेन्ट जावेद इकबाल	एम एस-17068 एक्स 32388जी	ए एम सी	16.03.2013
फ़्लाइट लेफ्टिनेन्ट सौरभ गाड़न	एम एस-17117पी 33144एफ	ए एम सी	13.08.2013
फ़्लाइट लेफ्टिनेन्ट बि एस भव्या	एम एस-17143डब्ल्यू 33135बी	ए एम सी	06.08.2013
फ़्लाइट लेफ्टिनेन्ट वी पूजा	एम एस-17195एम 33143ए	ए एम सी	06.08.2013
फ़्लाइट लेफ्टिनेन्ट आर नाग महेंद्रन	एम एस-17144 वाई (33137के)	ए एम सी	06.08.2013
फ़्लाइट लेफ्टिनेन्ट विक्रान्त	एम एस-17152एक्स 33132एल	ए एम सी	06.08.2013
फ़्लाइट लेफ्टिनेन्ट नमिता चौधरी	एम एस-17158वाई 33140के	ए एम सी	06.08.2013
फ़्लाइट लेफ्टिनेन्ट अपराजिता	एम एस-17201पी 33141एन	ए एम सी	06.08.2013
फ़्लाइट लेफ्टिनेन्ट संतोष एस भसरकोड	एम एस-17264एक्स 33669के	ए एम सी	17.12.2013
फ़्लाइट लेफ्टिनेन्ट विजय एस	एम एस-16950वाई ए एफ-32374जी	ए एम सी	04.09.2012

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट चेरुशेरिकारन बेटसी अन्थोनी	एम एस- 17142एन ए एफ-33139एस	ए एम सी	06.08.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट तिवारी विभा बट्टी विशाल	एम एस-17165पी ए एफ 33138एन	ए एम सी	06.08.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट गौरव दास	एम एस-17198ए ए एफ-33136जी	ए एम सी	06.08.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सबीश इ	एम एस-17151पी (33131एच)	ए एम सी	06.08.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट स्नेहा दिनकर	एम एस-17238डब्ल्यू (33146एल)	ए एम सी	17.09.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सुश्री संगीता खटुआ	एम एस-17239 वाई (33147आर)	ए एम सी	17.09.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट राहुल कुमार	एम एस-17242 वाई (33150 आर)	ए एम सी	11.10.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट जगदीश सिंह अरोड़ा	एम एस- 16957एच (32379 एफ)	ए एम सी	21.09.2012
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट कुलकर्णी अनिकेत अशोक	एम एस- 16949 के (32375 के)	ए एम सी	04.09.2012

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट दन्वन्त डी एस	एम एस-17015वाई 76191 के	ए एम सी	06.11.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट निदिन रहमान वी पी	एम एस- 17146 के 76238-टी	ए एम सी	06.08.2013
सर्जन लेफ्टिनेन्ट साहारे प्रणेश हितेन्द्र कुमार	एम एस-17181 एम 76243-बी	ए एम सी	06.08.2013
सर्जन लेफ्टिनेन्ट मनोज कुमार यु	एम एस- 17202 एक्स 76237-आर	ए एम सी	06.08.2013
सर्जन लेफ्टिनेन्ट प्रियंका पाण्डेय	एम एस-17229 पी 76164 जेड	ए एम सी	21.09.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट अंकुज तिन्ना	एम एस-17237 एन 76158 के	ए एम सी	22.09.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट विजय कुमार वाराड़ा	एम एस-17055 ए 76198ए	ए एम सी	12.02.2013
सर्जन लेफ्टिनेन्ट पराते किरणकुमार झानेशवर	एम एस-17064 एफ 76205 टी	ए एम सी	12.02.2013
सर्जन लेफ्टिनेन्ट पवन कृष्ण एच	एम एस-17159 एफ	ए एम सी	06.08.2013

	76240 वाई		
सर्जन लेफ्टिनेन्ट अजित मोहन	एम एस-17160डब्ल्यू 76231ए	ए एम सी	06.08.2013
सर्जन लेफ्टिनेन्ट प्रशान्त ए एम	एम एस-17163 के 76241जेड	ए एम सी	06.08.2013
सर्जन लेफ्टिनेन्ट संगीता प्रसाद	एम एस- 17170ए 76244 एफ	ए एम सी	06.08.2013
सर्जन लेफ्टिनेन्ट पठान रहीम खान नामदार अली खान	एम एस-17173 एन 76239डब्ल्यू	ए एम सी	06.08.2013
सर्जन लेफ्टिनेन्ट गगनदीप कौर रंधावा	एम एस-17176 एफ 76236 एन	ए एम सी	06.08.2013
सर्जन लेफ्टिनेन्ट रविराज	एम एस- 17185एच 76242 ए	ए एम सी	06.08.2013
सर्जन लेफ्टिनेन्ट सुनील कुमार	एम एस-17204 एच 76245 एच	ए एम सी	06.08.2013
सर्जन लेफ्टिनेन्ट अकेटी सागर	एम एस-17205 एल 76232 बी	ए एम सी	06.08.2013
सर्जन लेफ्टिनेन्ट सुमन सिंह	एम एस-17035एम 76195 डब्ल्यू	ए एम सी	29.12.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट नरसिंहाराव अरि	एम एस-17040एक्स 76184 डब्ल्यू	ए एम सी	29.12.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट बिनोय मैकिल	एम एस-17042एच 76183टी	ए एम सी	29.12.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट राहुल वत्सगोत्र	एम एस-17043टी 76186जेड	ए एम सी	29.12.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट वंजारिया हर्ष प्रविण	एम एस-17047एफ 76192एन	ए एम सी	29.12.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट मुत्तु कमल वी के बी	एम एस-17048के 76182आर	ए एम सी	29.12.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट अर्णब सेनगुप्ता	एम एस-17053पी 76204आर	ए एम सी	12.02.2013
सर्जन लेफ्टिनेन्ट पिन्निटी अनिल	एम एस-17060एल 76196वाई	ए एम सी	12.02.2013

सर्जन लेफ्टिनेन्ट एस एन रवि कुमार	एम एस 17062डब्ल्यू 76197 जेड	ए एम सी	12.02.2013
सर्जन लेफ्टिनेन्ट योगेश यादव	एम एस-17063वाई 76206 डब्ल्यू	ए एम सी	12.02.2013

राष्ट्रपति सहर्ष थल सेना अनुदेश 10/2001 के अधीन निम्नलिखित सेना चिकित्सा सेवा (गैरतकनीकी)/ स्थायी आयोग अधिकारियों को 09 अप्रैल 2014 से नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर 09 अप्रैल 2014 से प्रभावी (परख पर)

क्रम संख्या	पद	नाम	पुराना सैन्य संख्या	नया व्यक्तिगत संख्या	आयोग की तिथि
(ए)	हवलदार	समिर छेत्रि	15413371-एफ	एन टी आर - 16893-एच	09 अप्रैल 2014
(बी)	नायक	राकेश चंद्र	15427125-एफ	एन टी आर - 16894-एल	09 अप्रैल 2014
(सी)	नायक	संजीव वाघमोरे	15417660-एन	एन टी आर - 16895-एन	09 अप्रैल 2014
(डी)	नायक	गुलाम हुसैन अंसारी	15424611-एन	एन टी आर - 16896-डब्ल्यू	09 अप्रैल 2014
(इ)	नायक	दानिश एस	15425378-एक्स	एन टी आर - 16897-वाई	09 अप्रैल 2014

राष्ट्रपति सहर्ष थल सेना अनुदेश 40/73 के अधीन निम्नलिखित सेना चिकित्सा सेवा (गैरतकनीकी)/अल्पकालिक सेवा आयोग अधिकारियों को 15 फरवरी 2008 से नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालिक सेवा आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर 15 फरवरी 2008 से प्रभावी

क्रम संख्या	पद	नाम	पुराना सैन्य संख्या	नया व्यक्तिगत संख्या	आयोग की तिथि
(ए)	हवलदार	नंद किशोर मिश्रा	13989183-के	एन टी एस-17628-वाई	15 फरवरी 2008

राष्ट्रपति सहर्ष थल सेना अनुदेश 40/73 के अधीन निम्नलिखित सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी)/अल्पकालिक सेवा आयोग अधिकारियों को 09 अप्रैल 2014 से नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालिक सेवा आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर 09 अप्रैल 2014 से प्रभावी (परख पर)

क्रम संख्या	पद	नाम	पुराना सैन्य संख्या	नया व्यक्तिगत संख्या	आयोग की तिथि
(ए)	नायब	राधा कान्त शर्मा	जे सी - 699359-वाई	एन टी एस - 17629-एफ	09 अप्रैल 2014

	सूबेदार		(वेतन के लिये ज्येष्ठता 09 अप्रैल 2012 से प्रभावी)		
(बी)	हवलदार	बिभुदात्ता साहू	15419902-के	एन टी एस - 17630-डब्ल्यू	09 अप्रैल 2014
(सी)	हवलदार	सुहेल अहमद दार	15421366-एल	एन टी एस - 17631-वाई	09 अप्रैल 2014
(डी)	हवलदार	अनिल कुमार भुटिया	15418855-एल	एन टी एस - 17632-एफ	09 अप्रैल 2014
(इ)	नायक	एस विगनेशवरण	15418706-एक्स	एन टी एस - 17633-के	09 अप्रैल 2014
(एफ)	नायक	संतोष कुमार सिंह	15415862-डब्लू	एन टी एस - 17634-एम	09 अप्रैल 2014
(जी)	नायक	मोहम्मद इकबाल वानी	15421343-के	एन टी एस - 17635-पी	09 अप्रैल 2014
(एच)	नायक	अमित सिंह	15426090-के	एन टी एस - 17636-एक्स	09 अप्रैल 2014
(आई)	सिपाही	पाबन बैलुंग	15411495-एक्स	एन टी एस - 17637-ए	09 अप्रैल 2014
(जे)	सिपाही	विकास शर्मा	15425007-पी	एन टी एस - 17638-एच	09 अप्रैल 2014

डी वी सिंह

ब्रिगे.

उप महानिदेशक (मा.सं.)

(सेना शाखा)

सं. 102, दिनांक 21 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को परख अवधि पूरा होने पर पुष्टि करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

क्रम संख्या	व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	आयोग की तिथि
(ए)	एन टी आर-16871-के	कप्तान	रौशन सिंह राघव	10 अप्रैल 2012
(बी)	एन टी आर-16872-एम	कप्तान	तरुण सिंह कुशवाहा	10 अप्रैल 2012
(सी)	एन टी आर-16873-पी	कप्तान	प्रवीण प्रसाद	10 अप्रैल 2012
(डी)	एन टी आर-16874-एक्स	कप्तान	टोनी अगस्टिन	10 अप्रैल 2012
(इ)	एन टी आर-16875-ए	कप्तान	दीपक जी	10 अप्रैल 2012
(एफ)	एन टी आर-16876-एच	कप्तान	विजय कुमार	10 अप्रैल 2012

अल्पकालिक सेवा आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

क्रम संख्या	व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	आयोग की तिथि
(ए)	एन टी एस-17618-पी	लेफ्टिनेंट	अमरजीत सिंह	13 अप्रैल 2013
(बी)	एन टी एस-17619-एक्स	लेफ्टिनेंट	थोर्व विशाल बबन	13 अप्रैल 2013
(सी)	एन टी एस-17620-एम	लेफ्टिनेंट	शुभांशु मिश्रा	13 अप्रैल 2013
(डी)	एन टी एस-17621-पी	लेफ्टिनेंट	रोजु जोसेफ	13 अप्रैल 2013
(इ)	एन टी एस-17622-एक्स	लेफ्टिनेंट	कोनेनि वैकटरमन	13 अप्रैल 2013
(एफ)	एन टी एस-17623-ए	लेफ्टिनेंट	सौम्य रंजन मिश्रा	13 अप्रैल 2013
(जी)	एन टी एस-17624-एच	लेफ्टिनेंट	राज नाथ यादव	13 अप्रैल 2013
(एच)	एन टी एस-17625-एल	लेफ्टिनेंट	अखिल कुमार गुरुंग	13 अप्रैल 2013
(आई)	एन टी एस-17626-एन	लेफ्टिनेंट	पाटील संतोष	13 अप्रैल 2013
(जे)	एन टी एस-17627-डब्ल्यू	लेफ्टिनेंट	अनिल कुमार	13 अप्रैल 2013

डी वी सिंह

ब्रिगे.

उप महानिदेशक (मा.सं.)

(सेना शाखा)

सं. 103, दिनांक 22 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को कल्पित पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल (समय - मान) के पद पर

क्रम संख्या	व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
(ए)	एन टी आर-16538-एल	लेफ्टिनेंट कर्नल	सुदर्शन पिल्लई जी	10 जनवरी 2008

पवन कपूर

मेजर जनरल

अपर महानिदेशक स.से.चि.से.(मा.सं.)

(सेना शाखा)

सं. 104 दिनांक 22 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर-16681-एक्स	मेजर	गुकाशंकर जे	07 जनवरी 2014
एन टी आर-16709-एम	मेजर	अलेक्सैंडर के टी	04 अप्रैल 2014
एन टी आर-16710-एफ	मेजर	सिब्रत्था प्रधान	04 अप्रैल 2014
एन टी आर-16685-एन	मेजर	जसविंदर सिंह	04 अप्रैल 2014
एन टी आर-16686-डब्ल्यू	मेजर	बिद्युत मुखर्जी	04 अप्रैल 2014
एन टी आर-16687-वाई	मेजर	हेमंत कुमार त्रिपाठी	04 अप्रैल 2014
एन टी आर-16688-एफ	मेजर	अनिल कुमार	04 अप्रैल 2014
एन टी आर-16689-के	मेजर	रविंद्रा उप्रेति	04 अप्रैल 2014
एन टी आर-16750-एच	मेजर	योगेश एच वी	04 अप्रैल 2014

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर

एम एस-14468वाई	मेजर	विजय प्रसाद	17.02.2014
एम एस-14546एल	मेजर	प्रतिभा शर्मा	13.02.2014
एम एस-14550एन	मेजर	सतीन्दर कौर चौहान	17.02.2014
एम एस-14572एम	मेजर	गौतम कुमार गोयल	27.02.2014
एम एस-14589ए	मेजर	दिव्या शर्मा	20.03.2014

अल्पकालिक सेवा आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि	
			कप्तान	मेजर
एन टी एस-17628-वाई	लेफ्टिनेंट	नंद किशोर मिश्रा	15 फरवरी 2010	15 फरवरी 2014

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

कप्तान से मेजर के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर-16785-वाई	कप्तान	देश राज चंदेल	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16786-एफ	कप्तान	दिलीप कुमार शुक्ला	15 फरवरी 2014

एन टी आर-16787-के	कप्तान	रमेश टी	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16788-एम	कप्तान	सुरेन्द्र सिंह	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16789-पी	कप्तान	भूपेन्द्र सिंह भाटी	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16790-के	कप्तान	प्रदीप कुमार सिंह	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16791-एम	कप्तान	नरेंद्रा सिंह रावत	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16792-पी	कप्तान	गौडप्पा सिङ्गापुर	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16793-एक्स	कप्तान	महेश महतो	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16794-ए	कप्तान	सहिदुज जमन	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16795-एच	कप्तान	शैख मुजीब	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16796-एल	कप्तान	अमनदीप सिंह	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16797-एन	कप्तान	राकेश कुमार शर्मा	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16798-डब्ल्यू	कप्तान	पॉल संचायन	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16799-वाई	कप्तान	आजाद खान	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16800-एच	कप्तान	अमित कुमार	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16801-एल	कप्तान	चौगुले संतोष सखाराम	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16802-एन	कप्तान	अनिर्बन चौधरी	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16803-डब्ल्यू	कप्तान	संजय कुमार	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16869-एम	कप्तान	मिंटू कुमार	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16870-एफ	कप्तान	जोयोत चट्टोपाध्याय	15 फरवरी 2014
एन टी आर-16880-एल	कप्तान	पंकज राय	15 फरवरी 2014

मेजर लक्ष्मी पति (एन टी एस – 17549-के अब एन टी आर – 16888- एक्स-20 मार्च 2013

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 03 मई 2014 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

मेजर उबाले नरायण सर्जेराव (एन टी एस – 17552-के अब एन टी आर-16889-ए)-20 मार्च 2013

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 03 मई 2014 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

अल्पकालिक सेवा आयोग
सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)
कप्तान से मेजर के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एनटीएस-17557-एच	कप्तान	मिरेन वती	15 फरवरी 2014
एनटीएस-17558-एल	कप्तान	शोनावाने विलाश शंकर	15 फरवरी 2014
एनटीएस-17560-एच	कप्तान	अनुज कुमार	15 फरवरी 2014

एनटीएस-17561-एल	कप्तान	जिथेश निल्लोलि किलोथ	15 फरवरी 2014
एनटीएस-17563-डब्ल्यू	कप्तान	भोसले सतिश चंद्रसेन	15 फरवरी 2014
एनटीएस-17564-वाई	कप्तान	रूपेंद्र सिंह	15 फरवरी 2014
एनटीएस-17565-एफ	कप्तान	रोहित सी जी	15 फरवरी 2014
एनटीएस-17566-के	कप्तान	सुशील कुमार	15 फरवरी 2014
एनटीएस-17568-पी	कप्तान	कैलाश चंद समोटा	15 फरवरी 2014
एनटीएस-17569-एक्स	कप्तान	सुनील एक्का	15 फरवरी 2014
एनटीएस-17570-एम	कप्तान	कमलेश कुमार	15 फरवरी 2014
एनटीएस-17571-पी	कप्तान	महेंद्र कुमार बाल्मिकी	15 फरवरी 2014

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेंट से कैप्टन के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर-16871-के	लेफ्टिनेंट	रौशन सिंह राघव	10 अप्रैल 2014
एन टी आर-16872-एम	लेफ्टिनेंट	तरुण सिंह कुशवाहा	10 अप्रैल 2014
एन टी आर-16873-पी	लेफ्टिनेंट	प्रवीण प्रसाद	10 अप्रैल 2014
एन टी आर-16874-एक्स	लेफ्टिनेंट	टोनी अगस्टिन	10 अप्रैल 2014
एन टी आर-16875-ए	लेफ्टिनेंट	दीपक जी	10 अप्रैल 2014
एन टी आर-16876-एच	लेफ्टिनेंट	विजय कुमार	10 अप्रैल 2014

कप्तान गिरीश जी (एन टी एस-17585-पी अब एन टी आर - 16892-ए) - 07 अप्रैल 2012

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19 जनवरी 2013 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान संजय सिंह राघव (एन टी एस-17582-एफ अब एन टी आर - 16891-एक्स) - 07 अप्रैल 2012

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19 जनवरी 2013 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान एस वी नरसिम्हा राव सी एच (एन टी एस-17579-एफ अब एन टी आर - 16890-पी) - 07 अप्रैल 2012

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19 जनवरी 2013 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान उबाले नारायण सर्जेराव (एन टी एस-17552-के अब एन टी आर - 16889-ए) - 20 मार्च 2009

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 02 जनवरी 2010 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान लक्ष्मी पति (एन टी एस-17549-के अब एन टी आर-16888-एक्स)-20 मार्च 2009

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 22 अगस्त 2009 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

कैप्टन से मेजर के पद पर

एम एस-16242एम	कप्तान	गजेंद्र कुमार सोनी	14.08.2013
एम एस-16284वाई	कप्तान	पाटील प्रशांत रामदास	25.09.2013
एम एस-16369पी	कप्तान	रोहन पी जे	29.12.2013
एम एस-16370के	कप्तान	निमिता के मोहन	29.12.2013
एम एस- 16372पी	कप्तान	सि सिसिलिया सेवियर ज्योति	29.12.2013
एम एस-16374ए	कप्तान	आशिष एस मल्लिगे	29.12.2013
एम एस-16379वाई	कप्तान	रजत चौहान	30.12.2013
एम एस-16382वाई	कप्तान	नवीन कुमार सिंह	30.12.2013
एम एस-16383एफ	कप्तान	नवदीप बन्याल	30.12.2013
एम एस-16384के	कप्तान	सितम मोहांती	30.12.2013
एम एस-16387एक्स	कप्तान	अनिल कुमार दलाल	30.12.2013
एम एस-16390एक्स	कप्तान	श्रीवत्स टी	30.12.2013
एम एस-16393एल	कप्तान	निहारिका मिश्रा	30.12.2013
एम एस-16395डब्ल्यू	कप्तान	राहुल कुमार शरण	30.12.2013
एम एस-16411एच	कप्तान	दिव्यांशु नड्डा	30.12.2013
एम एस-16413एन	कप्तान	मान सिंह	30.12.2013
एम एस-16420के	कप्तान	सुदर्शन कुमार आर्य	31.12.2013
एम एस-16424ऐ	कप्तान	सत्य नारायण पाण्डा	01.01.2014
एम एस-16426एल	कप्तान	सुनील कुमार ठाकुर	01.01.2014
एम एस-16427एन	कप्तान	स्वप्ना सुधा मन्ने	01.01.2014
एम एस-16435एम	कप्तान	सविता कुमारी दिनोदिया	02.01.2014
एम एस-16450एफ	कप्तान	सुनील प्रधान	05.01.2014
एम एस-16475एन	कप्तान	सतीश कुमार	09.01.2014
एम एस-16484पी	कप्तान	रंजन आनंद	09.01.2014
एम एस-16489एन	कप्तान	कौर नवनीत	10.01.2014
एम एस-16620ए	कप्तान	मोसीन मुनीर	15.12.2013
एम एस-16713पी	कप्तान	मुज़फर अहमद भट्ट	17.12.2013
एम एस-16287एम	कप्तान	गायकवाड सोमेश्वर नारायण	28.07.2013
एम एस-16363एन	कप्तान	कार्तिक डी	03.09.2013
एम एस-16394एन	कप्तान	सुनीता बिष्ट	30.12.2013
एम एस-16400डब्ल्यू	कप्तान	अंशु माला भेंगरा	30.12.2013

एम एस-16401वाई	कप्तान	रागिनी	30.12.2013
एम एस-16432वाई	कप्तान	जशनप्रीत सिंह	01.01.2014
एम एस-16434के	कप्तान	प्रदीप के आर	02.01.2014
एम एस-16440एक्स	कप्तान	अलकजेण्डर जोसफ	04.01.2014
एम एस-16490एच	कप्तान	शिखा यादव	11.01.2014
एम एस-15549एल	कप्तान	शरद जुनेजा	21.02.2012
एम एस-15740एम	कप्तान	जितेन्द्र गुप्ता	25.04.2012
एम एस-15947एम	कप्तान	रूचि हेमदानी	11.02.2014
एम एस-15963के	कप्तान	ताराप्रणव भट्टाचार्य	11.02.2014
एम एस-15966एक्स	कप्तान	अभिनव श्रीवास्तव	11.02.2014
एम एस-15968एच	कप्तान	विजय सिंह	11.02.2014
एम एस-15978एम	कप्तान	हितेन्द्र सिंह राव	11.02.2014
एम एस-15987एन	कप्तान	लिनटो मंजली	11.02.2014
एम एस-16059के	कप्तान	मोहित अग्निहोत्री	26.02.2013
एम एस-16208एम	कप्तान	अजय कुमार	11.08.2013
एम एस-16238के	कप्तान	संध्या आर	13.08.2013
एम एस-16255के	कप्तान	जयंत चक्रवर्ती	19.02.2013
एम एस-16396वाई	कप्तान	रविन्दर सिंह	30.12.2013
एम एस-16421एम	कप्तान	सतविन्दर सिंह	31.12.2013
एम एस-16430 एन	कप्तान	बडूला सन्दीप कुमार	01.01.2014
एम एस-16452एम	कप्तान	अभिषेक बनोता	06.01.2014
एम एस-16454एक्स	कप्तान	कसुकुरति लीलाकांत	06.01.2014
एम एस-16460एल	कप्तान	सन्नी मक्कर	07.01.2014
एम एस-16461एन	कप्तान	सिद्धरमेश गडगी	08.01.2014
एम एस-16472ए	कप्तान	अभय सिंह	08.01.2014
एम एस-16481एफ	कप्तान	टिन्टु सेबी	09.01.2014
एम एस-16494वाई	कप्तान	स्रवान्ति उप्पलपाटि	23.01.2014
एम एस-16495एफ	कप्तान	संदीप कुमार	26.01.2014
एम एस-16498पी	कप्तान	नरेश बाबु	29.01.2014
एम एस-16499एक्स	कप्तान	चुनकीकर विजय भीमराव	29.01.2014

एम एस-16500एफ	कप्तान	सौम्या देवरायी	02.02.2014
एम एस-16503पी	कप्तान	षबीन कुमार टी	05.02.2014
एम एस-16513वाई	कप्तान	पवार रमेश संतराम	11.02.2014
एम एस-16744पी	कप्तान	संजय	19.01.2011
एम एस-15948पी	कप्तान	मौमिता घटक	11.02.2014
एम एस-16005एच	कप्तान	दीपक अगरवाल	26.02.2013
एम एस-16012वाई	कप्तान	सुखदेवे नितिन भानुदास	26.02.2013
एम एस-16476डब्ल्यू	कप्तान	जाधव स्वप्नील सुन्दरसिंग	09.01.2014
एम एस-16516एम	कप्तान	सातपुते अमरसिंह रणजितराव	12.02.2014
एम एस-16519ए	कप्तान	निपुण गुप्ता	15.02.2014
एम एस-16520पी	कप्तान	सूरज कुमार एस	15.02.2014
एम एस-16522ए	कप्तान	तरुण सिंह	16.02.2014
एम एस-16523एच	कप्तान	मनोज बालचन्द्रन	17.02.2014
एम एस-16524एल	कप्तान	विष्णु प्रियन ई	18.02.2014
एम एस-16525एन	कप्तान	वि चन्द्रकान्त	18.02.2014
एम एस-16526W	कप्तान	काजोल खोस्या	18.02.2014
एम एस-16527वाई	कप्तान	राहुल सन्धु	19.02.2014
एम एस-16531एफ	कप्तान	टी एस अर्जुन	25.02.2014
एम एस-16532के	कप्तान	विकास सिंह	26.02.2014
एम एस-16535एक्स	कप्तान	यशवीर सिंह सहरावत	09.03.2014
एम एस-16567ए	कप्तान	गीती शर्मा	19.03.2014
एम एस-16847एन	कप्तान	दत्ता श्रावणी उत्पल	29.09.2013
एम एस-16876एच	कप्तान	राहुल गुप्ता	22.05.2012
एम एस-16887पी	कप्तान	संध्या घोडके	17.07.2014
एम एस-17036पी	कप्तान	जीगर राजेश कौशिक प्रसाद	29.12.2013

लेफ्टिनेंट से कैप्टन के पद पर

एम एस-16903एफ	लेफ्टिनेंट	अलिषा राज	23.02.2013
एम एस-16906पी	लेफ्टिनेंट	तुलसिधरन वी पी	23.02.2013
एम एस-16788एम	लेफ्टिनेंट	लोविन जोर्ज	26.02.2012
एम एस-16915डब्ल्यू	लेफ्टिनेंट	सर्वमित्रा पाठक	23.02.2013
एम एस-16577के	लेफ्टिनेंट	तारुष सिन्हा	06.08.2011

एम एस-16896 डब्ल्यू	लेफ्टिनेंट	अरुण पराशर	16.05.2013
एम एस-16897वाई	लेफ्टिनेंट	अरुणजीत के के	23.02.2013
एम एस-16899के	लेफ्टिनेंट	राधिका गुप्ता	23.02.2013
एम एस-16900एन	लेफ्टिनेंट	वन्दना राणी वी	23.02.2013
एम एस-16902वाई	लेफ्टिनेंट	श्वेता भारद्वाज	23.02.2013
एम एस-16904के	लेफ्टिनेंट	शिल्पा जौहरी	23.02.2013
एम एस-16905एम	लेफ्टिनेंट	प्रियका राठौर	23.02.2013
एम एस-16907एक्स	लेफ्टिनेंट	सलिल जेना	23.02.2013
एम एस-16910एक्स	लेफ्टिनेंट	विकास गुप्ता	23.02.2013
एम एस-16920एफ	लेफ्टिनेंट	अमित कुमार	23.02.2013
एम एस-16921के	लेफ्टिनेंट	विवेक यादव	23.02.2013
एम एस-16922एम	लेफ्टिनेंट	अभिनव भारद्वाज	23.02.2013
एम एस-16923पी	लेफ्टिनेंट	रूपेश	23.02.2013
एम एस-16924एक्स	लेफ्टिनेंट	संदीपन श्रींगी	23.02.2013
एम एस-16927एल	लेफ्टिनेंट	विवेक	23.02.2013

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेंट से कैप्टन के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एनटीएस-17602-के	लेफ्टिनेंट	प्रकाश चंद्रा मिश्रा	10 अप्रैल 2014
एनटीएस-17603-एम	लेफ्टिनेंट	पी राजा रमन	10 अप्रैल 2014
एनटीएस-17604-पी	लेफ्टिनेंट	सतीश कुमार	10 अप्रैल 2014
एनटीएस-17605-एक्स	लेफ्टिनेंट	शाजी के पी	10 अप्रैल 2014
एनटीएस-17606-ए	लेफ्टिनेंट	सुजेश पी	10 अप्रैल 2014
एनटीएस-17607-एच	लेफ्टिनेंट	शेख रेड्डी गौस	10 अप्रैल 2014
एनटीएस-17608-एल	लेफ्टिनेंट	तनमय कुमार मिश्रा	10 अप्रैल 2014
एनटीएस-17609-एन	लेफ्टिनेंट	यशविर सिंह	10 अप्रैल 2014
एनटीएस-17610-एच	लेफ्टिनेंट	नागाजुम रिड़ा	10 अप्रैल 2014
एनटीएस-17611-एल	लेफ्टिनेंट	बिक्रम	10 अप्रैल 2014
एनटीएस-17612-एन	लेफ्टिनेंट	गौरव राय	10 अप्रैल 2014
एनटीएस-17613-डब्ल्यू	लेफ्टिनेंट	राजीश के	10 अप्रैल 2014
एनटीएस-17614-वाई	लेफ्टिनेंट	विवेक कुमार	10 अप्रैल 2014
एनटीएस-17615-एफ	लेफ्टिनेंट	मिथुन एस एम	10 अप्रैल 2014
एनटीएस-17616-के	लेफ्टिनेंट	सुबोध कुमार	10 अप्रैल 2014
एनटीएस-17617-एम	लेफ्टिनेंट	सतेंद्र सिंह सेंगर	10 अप्रैल 2014

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

सर्जन लेफ्टिनेंट से सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर

एम एस-15950एम (75996टी)	सर्जन लेफ्टिनेंट	ज्योति शर्मा	11.02.2014
एम एस-15960डब्ल्यू (76014एच)	सर्जन लेफ्टिनेंट	श्याम कुमार	11.02.2014
एम एस-15993एफ (76011ए)	सर्जन लेफ्टिनेंट	करुवा एल्लारामुडु	26.02.2013
एम एस-16437एक्स (76045बी)	सर्जन लेफ्टिनेंट	खेम सागर पटेल	04.01.2014
एम एस-16441ए (76059के)	सर्जन लेफ्टिनेंट	पोथिरेड्डी श्रीनिवासुलु	04.01.2014
एम एस-16458एन (76052डब्ल्यू)	सर्जन लेफ्टिनेंट	पि स्वेता रतना	08.01.2014

एम एस-16470पी (76060एन)	सर्जन लेफ्टिनेंट	पाटील प्रशांत	09.01.2014
एम एस-16464एफ (76049एन)	सर्जन लेफ्टिनेंट	राघवेन्द्र सबरद	09.01.2014
एम एस-16467पी (76047एच)	सर्जन लेफ्टिनेंट	अर्चना सिंह	09.01.2014

सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर से सर्जन कमांडर के पद पर

एम एस-14401ए (75799डब्ल्यू)	सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर	उमाकांत बेरिहा	01.03.2013
एम एस-15246 डब्ल्यू (75922 जेड)	सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर	अविषेक कुमार	21.04.2014

सर्जन सब लेफ्टिनेंट से सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर

एम एस – 17095एफ (76209ए)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	जिन्स माथ्यु	01.03.2014
एम एस – 16775पी (76102एच)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	जी एस आर किशोर कुमार	26.02.2012
एम एस – 16771वाई (76103के)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	अहमद जैद जमाल	26.02.2012

डी वी सिंह

ब्रिगे.

उप महानिदेशक, (मा.सं.)

सेना शाखा

सं. 105, दिनांक 23 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को दिनांक 08 नवम्बर 2013 से अल्पकालिक सेवा कमीशन (सेना चिकित्सा कोर) से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 10/2001 यथा संशोधित के अधीन उपरोक्त तिथि से स्थायी आयोग प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना
स्थायी आयोग
सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)
लेफ्टिनेंट के पद पर

लेफ्टिनेंट लक्ष्मी पति (एन टी एस – 17549-के अब एन टी आर– 6888-एक्स-20 मार्च 2007

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 09 फरवरी 2008 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

(लेफ्टिनेंट उबाले नारायण सर्जेराव (एन टी एस – 17552-के अब एन टी आर – 16889-ए – 20 मार्च 2007

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2008 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

लेफ्टिनेंट एस वी नरसिम्हा राव (एन टी एस – 17579-एफ अब एन टी आर – 16890-पी – 07 अप्रैल 2010

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 30 अप्रैल 2011 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

लेफ्टिनेंट संजय सिंह राघव (एन टी एस – 17582-एफ अब एन टी आर – 16891-एक्स – 07 अप्रैल 2010

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 30 अप्रैल 2011 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

लेफ्टिनेंट गिरीश जी (एन टी एस – 17585-पी अब एन टी आर – 16892-ए – 07 अप्रैल 2010

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 30 अप्रैल 2011 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

डी वी सिंह

ब्रिगे.

उप महानिदेशक (मा.सं.)

(सेना शाखा)

सं. 106, दिनांक 23 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त की अवधि पूरी होने पर सैनिक सेवा से निवृत्ति होने की अनुमति प्रदान करते हैं:

नियमित सेना
स्थायी आयोग
सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

क्रम संख्या	व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि
(ए)	एन टी आर-16538-एल	कर्नल (समय-मान)	सुदर्शन पिल्लई जी	28 नवम्बर 1955	30 नवम्बर 2011 (अपराहन)

पवन कपूर

मेजर जनरल

अपर महानिदेशक स.से.चि.से.(मा.सं.)

(सेना शाखा)

सं. 107, दिनांक 24 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को सेवानिवृत्त की अवधि पूरी होने पर सैनिक सेवा से निवृत्ति होने की अनुमति प्रदान करते हैं:-

नियमित सेना
स्थायी आयोग
सेना चिकित्सा कोर(गैर तकनीकी)

क्रम संख्या	व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि
(ए)	एन टी आर-16652-एच	लेफ्टिनेंट कर्नल	नगेंद्र राय	02 अक्टूबर 1957	31 अक्टूबर 2013 (अपराहन)
(बी)	एन टी आर-16653-एल	कर्नल (समय मान)	जित सिंह	03 दिसम्बर 1957	31 दिसम्बर 2013 (अपराहन)
(सी)	एन टी आर-16654-एन	कर्नल (समय मान)	गोरख नाथ सिंह	04 जनवरी 1958	31 जनवरी 2014 (अपराहन)
(डी)	एन टी आर-16585-एच	लेफ्टिनेंट कर्नल	सुरथ कुमार राज	23 जनवरी 1958	31 जनवरी 2014 (अपराहन)
(इ)	एन टी आर-16583-एक्स	लेफ्टिनेंट कर्नल	बलवान सिंह	02 फरवरी 1958	28 फरवरी 2014 (अपराहन)
(ए)	एन टी आर-16586-एल	लेफ्टिनेंट कर्नल	पी के मुखोपाध्याय	01 जनवरी 1957	31 दिसम्बर 2012 (अपराहन)
(बी)	एन टी आर-16649-एच	लेफ्टिनेंट कर्नल	गजराज सिंह	04 फरवरी 1957	28 फरवरी 2013 (अपराहन)
(सी)	एन टी आर-16657-एफ	लेफ्टिनेंट कर्नल	धर्म चंद शर्मा	07 मार्च 1957	31 मार्च 2013 (अपराहन)
(ए)	एन टी आर-16622-एल	लेफ्टिनेंट कर्नल	राम कुमार सिंह भदौरिया	04 जुलाई 1958	31 जुलाई 2014 (अपराहन)
(बी)	एन टी आर-16669-डब्ल्यू	लेफ्टिनेंट कर्नल	के नागाभुशनम नायडू	15 अक्टूबर 1958	31 अक्टूबर 2014 (अपराहन)
(सी)	एन टी आर-16606-एन	लेफ्टिनेंट कर्नल	चंद्रशेखरन एम के	02 नवम्बर 1958	30 नवम्बर 2014 (अपराहन)

डी वी सिंह

ब्रिगे.

उप महानिदेशक मा. सं.

सं. 108, दिनांक 24 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना
इन्फेन्ट्री
मैकनाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेंट
शुद्धि पत्र

भारत के राजपत्र सं 352, दिनांक 10 मई 1996 में प्रकाशित अधिसूचना सं 24 दिनांक 15 जून 1996 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक इन्फेन्ट्री और मैकनाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेंट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है ।

के स्थान पर	अरुण शंकर शुक्ला (जे सी-418579 एफ)	15 जनवरी 1996
पढ़ा जाए	अरुण शंकर शुक्ला(जे सी-418579 एफ)	13 जनवरी 1996

राजीव जौहरी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th May 2015

(ARMY BRANCH)

No. 101, dated 21st April 2015—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

TO BE CAPT

CAPT VARUN KUMAR MS-17038-A DOC-29-12-2012

With seniority for pay and promotion from 29.06.2012. This includes 06 months antedate for housejob appointment as Junior Resident at Guru Nanak Eye Centre, Govt of NCT of Delhi, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT DEBATRAYA PAUL MS-16969-X DOC-21-09-2012

With seniority for pay and promotion from 21.03.2012. This includes 06 months antedate for housejob appointment as House Staff in the Department of CTVS at NRS Medical College and Hospital, Govt of West Bengal, Kolkata, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT REENA KUMARI MS-16672-W DOC- 15-06-2010

With seniority for pay and promotion from 15.12.2009. This includes 06 months antedate for housejob appointment as Duty Doctor at Kirloskar Memorial Hospital, Bangalore, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT GIDDI SARATH BABU MS-16280-H DOC- 15-09-2009

With seniority for pay and promotion from 15.03.2009. This includes 06 months antedate for housejob appointment as Casualty Medical Officer at Pondicherry Institute of Medical Sciences, Pondicherry, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT NEHA RACHEL BISWAS MS-16859-H DOC- 21-10-2011

With seniority for pay and promotion from 21.04.2011. This includes 06 months antedate for housejob appointment as junior medical officer at Dhamtari Christian Hospital, Dhamtari, Chhatisgarh, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT DEEPARANI .S. MS-16833-N DOC- 27-09-2011

With seniority for pay and promotion from 27.03.2009. This includes 24 months antedate for PG Diploma (Anaesthesiology) and 06 months antedate for housejob appointment as Junior Resident at Major S.D.Singh Medical College and Hospital, Farrukhabad, UP, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT MANOJ KUMAR MS-16878-N DOC-01-12-2011

With seniority for pay and promotion from 01.06.2009. This includes 24 months antedate for PG Diploma (Obstetric and Gynaecology) and 06 months antedate for housejob appointment as Senior Resident at Satyawadi Raja Harichandra Hospital, Govt of NCT of Delhi, Delhi, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT CHANDRACHOOD MANDAR VILAS MS-17004-M DOC-06-11-2012

With seniority for pay and promotion from 06.11.2009. This includes 36 months antedate for MD (Community Medicine), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT TANDEL KUNDANKUMAR UTTAMBHAI MS-17118-X DOC-21-09-2012

With seniority for pay and promotion from 21.09.2009. This includes 36 months antedate for PG Degree MD (Microbiology) issued by Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT NEERAJ SINGH MS-16823-K DOC-27-09-2011

With seniority for pay and promotion from 27.03.2008. This includes 42 months antedate for PG Degree MD (Paediatrics) and six months for housejob appointment held at Christian Medical College, Ludhiana, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

TO BE FLT LT

FLT LT RUDRIKA CHANDRA MS-16956-A (AF-32381-A) DOC-21-09-2012

With seniority for pay and promotion from 21.09.2009. This includes 36 months antedate for MS (Obstetrics and Gynaecology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

TO BE SURG LT

SURG LT SUMAN SINGH MS-17035M (76195-W) DOC- 29.12.2012

With seniority for pay and promotion from 29.06.2012. This includes 06 months antedate seniority for hospital appointment as Junior Resident which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT SUDIPTA ADHIKARI MS-17026L (76194-T) DOC- 29.12.2012

With seniority for pay and promotion from 29.06.2012. This includes 06 months antedate for housejob appointment as Junior Resident at Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT ANKUJ TINNA MS-17237-N (76158-K) DOC- 22-09-2012

With seniority for pay and promotion from 22.09.2010. This includes 24 months antedate for PG Diploma (Ophthalmology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SHORT SERVICE COMMISSION

To be CAPT (on probation)

CAPT SATAO SUNILKUMAR RAMESHWAR	MS-17214M	AMC	19.10.2013
CAPT S MOHAN	MS-17224W	AMC	19.10.2013
CAPT SHESHIDEEP REDDY P	MS-17230K	AMC	17.12.2013
CAPT PRERNA BEDI	MS-17232P	AMC	17.12.2013
CAPT ANSHUL MUDGAL	MS-17234A	AMC	17.12.2013
CAPT DHANANJAY KUMAR SINGH	MS-17235H	AMC	17.12.2013
CAPT DEEPAK	MS-17236L	AMC	17.12.2013
CAPT AKANKSHA	MS-17244K	AMC	19.10.2013
CAPT AMITAVA LAYEK	MS-17245M	AMC	19.10.2013
CAPT UPADHYE MANOJ ARUN	MS-17247X	AMC	19.10.2013
CAPT JOSEPH JOHN	MS-17248A	AMC	19.10.2013
CAPT RISHI AGRAWAL	MS-17259M	AMC	19.10.2013

CAPT NIKIT MURTY	MS-17260F	AMC	19.10.2013
CAPT RAHUL MANRAL	MS-17266H	AMC	17.12.2013
CAPT ANKUR RAZDAN	MS-17267L	AMC	17.12.2013
CAPT DEEPAK KHATRI	MS-17281X	AMC	11.02.2014
CAPT VARUN KUMAR	MS-17065K	AMC	12.02.2013
CAPT REUBEN BOSE	MS-17189Y	AMC	06.08.2013
CAPT SANANDA ROY	MS-17190N	AMC	06.08.2013
CAPT AJAY TYAGI	MS-17211Y	AMC	19.10.2013
CAPT RANDHIR RANJAN	MS-17213K	AMC	19.10.2013
CAPT BASANT SINGH	MS-17218H	AMC	19.10.2013
CAPT NAVEEN KUMAR SINGH	MS-17219L	AMC	19.10.2013
CAPT VAIDEHI C RAJWADKAR	MS-17225Y	AMC	19.10.2013
CAPT RANJODH SINGH BHATTI	MS-17228M	AMC	19.10.2013
CAPT PRAVEEN BAJAJ	MS-17191W	AMC	06.08.2013
CAPT REETIKA DEVASHWAR	MS-17196P	AMC	06.08.2013
CAPT JAYANT RASTOGI	MS-17210W	AMC	19.10.2013
CAPT ANKIT KUMAR	MS-17216X	AMC	19.10.2013
CAPT KHUSHAL CHAND	MS-17222L	AMC	19.10.2013
CAPT ARJUN ANCHAN	MS-17223N	AMC	19.10.2013
CAPT SHIBANANDA MALLICK	MS-17226F	AMC	19.10.2013
CAPT DHRUBAJIT KALITA	MS-16204W	AMC	11.08.2009
CAPT PRIYA AVASTHI	MS-16673Y	AMC	15.06.2010
CAPT NITIN PAHUJA	MS-16961L	AMC	21.09.2012
CAPT PRIYANKA ARORA	MS-17135X	AMC	18.04.2013
CAPT RISHABH SINGH	MS-17137H	AMC	06.08.2013
CAPT SUNIL KUMAR	MS-17150M	AMC	06.08.2013
CAPT SRINIWAS GUPTA	MS-17157W	AMC	06.08.2013
CAPT PAWAN KUMAR TIWARI	MS-17174W	AMC	06.08.2013
CAPT ARAVINTHAN M	MS-17182P	AMC	06.08.2013
CAPT BHAGYALEKSHMI S	MS-17200M	AMC	06.08.2013
CAPT DIBENDU GHOSH	MS-17067P	AMC	16.03.2013
CAPT SHIKHA SHARMA	MS-17136A	AMC	06.08.2013
CAPT TARAVANTI	MS-17161Y	AMC	06.08.2013
CAPT SANDEEP DHAKA	MS-17166X	AMC	06.08.2013

CAPT VIVEK KUMAR GAUTAM	MS-17168H	AMC	06.08.2013
CAPT SUMIT SHARMA	MS-17171H	AMC	06.08.2013
CAPT KAPIL ASHOK KULKARNI	MS-17172L	AMC	06.08.2013
CAPT ANKIT KUMAR	MS-17175Y	AMC	06.08.2013
CAPT DEEPENDER SINGH	MS-17178M	AMC	06.08.2013
CAPT SUDEEP PADIVAL	MS-17179P	AMC	06.08.2013
CAPT SABARIRAJAN P	MS-16843X	AMC	27.09.2011
CAPT KIRAN	MS-16959N	AMC	21.09.2012
CAPT K HAREESH	MS-16965F	AMC	21.09.2012
CAPT BUSHRA ASIMA	MS-16968P	AMC	21.09.2012
CAPT MANPREET SINGH	MS-16981Y	AMC	21.09.2012
CAPT MULLANI PARVEZ SHABBIR	MS-16993N	AMC	21.09.2012
CAPT ABHINAV PAREEK	MS-16998M	AMC	21.09.2012
CAPT RUPAYAN BHATTACHARYA	MS-17010A	AMC	06.11.2012
CAPT SHREE KANT DADHEECH	MS-17014W	AMC	06.11.2012
CAPT VANDANA KUMARI	MS-17022P	AMC	17.11.2012
CAPT K SUBHASH	MS-17023X	AMC	17.11.2012
CAPT ANIRUDDHA BHATTACHARJEE	MS-17025H	AMC	17.11.2012
CAPT ASHISH GUPTA	MS-17045W	AMC	29.12.2012
CAPT PALLAVI VERMA	MS-17049M	AMC	29.12.2012
CAPT SMRITI GUPTA	MS-17050F	AMC	29.12.2012
CAPT IRWAN KOUR	MS-17051K	AMC	29.12.2012
CAPT ABHINANDAN RAMPAL	MS-17054X	AMC	12.02.2013
CAPT LALIT KUMAR	MS-17056H	AMC	12.02.2013
CAPT KUMAR ADARSH	MS-17057L	AMC	12.02.2013
CAPT ATUL KHULLAR	MS-17059W	AMC	12.02.2013
CAPT AJIT KUMAR	MS-17061N	AMC	12.02.2013
CAPT Y HANOCK DEVADOSS	MS-17069A	AMC	16.03.2013
CAPT MANVEER SINGH	MS-17138L	AMC	06.08.2013
CAPT AJAY BERIWAL	MS-17139N	AMC	06.08.2013
CAPT SUSHMA MANRAL	MS-17140H	AMC	06.08.2013
CAPT TRIPTI PARANDIYAL	MS-17141L	AMC	06.08.2013
CAPT KIRTI SANGWAN	MS-17145F	AMC	06.08.2013
CAPT LAKSHMI KESHAVA CG	MS-17147M	AMC	06.08.2013
CAPT POOJA NAIR	MS-17153A	AMC	06.08.2013
CAPT SUREKHA YADAV	MS-17156N	AMC	06.08.2013

CAPT SONAKSHI SAMBYAL	MS-17180K	AMC	06.08.2013
CAPT SUMIT SHARMA	MS-17184A	AMC	06.08.2013
CAPT RUCHI RANA	MS-17186L	AMC	06.08.2013
CAPT PRABHAV CHHAPERWAL	MS-17187N	AMC	06.08.2013
CAPT JITENDRA KUMAR TIWARI	MS-17188W	AMC	06.08.2013
CAPT PRABHU MADABHAVI	MS-17193F	AMC	06.08.2013
CAPT DEEPAN RAI	MS-17194K	AMC	06.08.2013
CAPT HARIPRASADH N	MS-17197X	AMC	06.08.2013
CAPT VIKAS YADAV	MS-17199H	AMC	06.08.2013
CAPT ANJU PANNU	MS-17206N	AMC	13.08.2013
CAPT SHIVANI MISHRA	MS-17207W	AMC	12.09.2013
CAPT RAAGHAV SUDAN	MS-17208Y	AMC	17.09.2013

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

(To be FG OFFR on probation)

FG OFFR GOURANG PALIWAL	<u>MS-17087H</u> (AF-32737F)	AMC	18.03.2013
FG OFFR MAYANK JHANWAR	<u>MS-17089N</u> (AF-32736A)	AMC	18.03.2013

The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

(To be FLT LT on probation)

FLT LT JAVED IQBAL	<u>MS-17068X</u> 32388G	AMC	16.03.2013
FLT LT SOURAV GAIN	<u>MS-17117P</u> 33144F	AMC	13.08.2013
FLT LT BS BHAVIYA	<u>MS-17143W</u> 33135B	AMC	06.08.2013
FLT LT V POOJA	<u>MS-17195M</u> 33143A	AMC	06.08.2013
FLT LT R NAGAMAHENDRAN	<u>MS-17144Y</u> (33137K)	AMC	06.08.2013
FLT LT VIKRANT	<u>MS-17152X</u> 33132L	AMC	06.08.2013
FLT LT NAMITA CHOUDHRY	<u>MS-17158Y</u> 33140K	AMC	06.08.2013
FLT LT APARAJITA	<u>MS-17201P</u> 33141N	AMC	06.08.2013
FLT LT SANTOSH S BASARAKOD	<u>MS-17264X</u> 33669K	AMC	17.12.2013
FLT LT VIJAY S	<u>MS-16950Y</u> (AF-32374G)	AMC	04.09.2012

FLT LT CHERUSSERIKKARAN BETSY ANTHONY	<u>MS-17142N</u> (AF-33139S)	AMC	06.08.2013
FLT LT TIWARI VIBHA BADRI VISHAL	<u>MS-17165P</u> (AF-33138N)	AMC	06.08.2013
FLT LT GAURAV DAS	<u>MS-17198A</u> (AF-33136G)	AMC	06.08.2013
FLT LT SABEESH E	<u>MS-17151P</u> (33131H)	AMC	06.08.2013
FLT LT SNEHA DINAKAR	<u>MS- 17238W</u> (33146L)	AMC	17.09.2013
FLT LT SUSHREE SANGITA KHATUA	<u>MS-17239Y</u> (33147R)	AMC	17.09.2013
FLT LT RAHUL KUMAR	<u>MS- 17242Y</u> (33150R)	AMC	11.10.2013
FLT LT JAGDISH SINGH ARORA	<u>MS-16957H</u> AF-32379F	AMC	21.09.2012
FLT LT KULKARNI ANIKET ASHOK	<u>MS-16949K</u> AF-32375K	AMC	04.09.2012

(To be SURG LT on probation)

SURG LT DHANVANTH DS	<u>MS-17015Y</u> 76191K	AMC	06.11.2012
SURG LT NIDHIN REHMAN VP	<u>MS-17146K</u> 76238-T	AMC	06.08.2013
SURG LT SAHARE PRANESH HITENDRAKUMAR	<u>MS-17181M</u> 76243-B	AMC	06.08.2013
SURG LT MANOJ KUMAR U	<u>MS-17202X</u> 76237-R	AMC	06.08.2013
SURG LT PRIYANKA PANDEY	<u>MS-17229P</u> (76164Z)	AMC	21.09.2012
SURG LT ANKUJ TINNA	<u>MS-17237N</u> (76158K)	AMC	22.09.2012
SURG LT VIJAYA KUMAR VARADA	<u>MS-17055A</u> 76198A	AMC	12.02.2013
SURG LT PARATE KIRANKUMAR DNYANESHWAR	<u>MS-17064F</u> 76205T	AMC	12.02.2013
SURG LT PAVANKRISHNA H	<u>MS-17159F</u> 76240Y	AMC	06.08.2013
SURG LT AJITH MOHAN	<u>MS-17160W</u> 76231A	AMC	06.08.2013
SURG LT PRASANTH AM	<u>MS-17163K</u> 76241Z	AMC	06.08.2013
SURG LT SANGEETA PRASAD	<u>MS-17170A</u> 76244F	AMC	06.08.2013
SURG LT PATHAN RAHIMKHAN NAMDAR ALI KHAN	<u>MS-17173N</u> 76239W	AMC	06.08.2013
SURG LT GAGANDEEP KAUR RANDHAWA	<u>MS-17176F</u> 76236N	AMC	06.08.2013

SURG LT RAVIRAJ	<u>MS-17185H</u> 76242A	AMC	06.08.2013
SURG LT SUNIL KUMAR	<u>MS-17204H</u> 76245H	AMC	06.08.2013
SURG LT AKETI SAGAR	<u>MS-17205L</u> 76232B	AMC	06.08.2013
SURG LT SUMAN SINGH	<u>MS-17035M</u> 76195W	AMC	29.12.2012
SURG LT NARASIMHARAO ARI	<u>MS-17040X</u> 76184W	AMC	29.12.2012
SURG LT BINOY MICHAEL	<u>MS-17042H</u> 76183T	AMC	29.12.2012
SURG LT RAHUL VATSGOTRA	<u>MS-17043L</u> 76186Z	AMC	29.12.2012
SURG LT VANJARIA HARSH PRAVIN	<u>MS-17047F</u> 76192N	AMC	29.12.2012
SURG LT MUTHU KAMAL VKB	<u>MS-17048K</u> 76182R	AMC	29.12.2012
SURG LT ARNAB SENGUPTA	<u>MS-17053P</u> 76204R	AMC	12.02.2013
SURG LT PINNINTI ANIL	<u>MS-17060L</u> 76196Y	AMC	12.02.2013
SURG LT SN RAVI KUMAR	<u>MS-17062W</u> 76197Z	AMC	12.02.2013
SURG LT YOGESH YADAV	<u>MS-17063Y</u> 76206W	AMC	12.02.2013

The President is pleased to make the following appointment under AI 10/2001 with effect from 09 Apr 2014, in AMC (Non Tech)/PC officers :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

AS LIEUTENANT WEF 09 APR 2014 (ON PROBATION)

Rank	Name	Old number and allotted new personal number		Date of Commission
		Old Army No	New Pers No	
Hav/LA	Samir Chhetri	15413371F	NTR-16893-H	09 Apr 2014
NK/NA	Rakesh Chander	15427125F	NTR-16894-L	09 Apr 2014
NK/PNA	Sanjeev Waghmore	15417660N	NTR-16895-N	09 Apr 2014
NK/LA	Gulam Hussain Ansari	15424611N	NTR-16896-W	09 Apr 2014
NK/PNA	Dhanish S	15425378X	NTR-16897-Y	09 Apr 2014

The President is pleased to make the following appointment under AI 40/73 with effect from 15 Feb 2008, in AMC (Non Tech)/SSC officers :—

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
AS LIEUTENANT WEF 15 FEB 2008

HAV/HA	Nand Kishor Mishra	13989183K	NTS-17628-Y	15 Feb 2008
--------	--------------------	-----------	-------------	-------------

The President is pleased to make the following appointment under AI 40/73 with effect from 09 Apr 2014, in AMC/SSC (Non Tech) officers :—

AS LIEUTENANT WEF 09 APR 2014 (ON PROBATION)

Nb Sub/X-Ray	Radha Kant Sharma	JC-699359Y	NTS-17629-F	09 Apr 2014
		(Seniority for Pay only will reckon with effect from 09 Apr 2012)		
HAV/X-RAY	Bibhudatta Sahoo	15419902K	NTS-17630-W	09 Apr 2014
HAV/X-RAY	Suhail Ahmad Dar	15421366L	NTS-17631-Y	09 Apr 2014
HAV/ORA	Anil Kumar Bhutia	15418855L	NTS-17632-F	09 Apr 2014
NK/BTA	S Vigneshwaran	15418706X	NTS-17633-K	09 Apr 2014
NK/NA	Santosh Kumar Singh	15415862W	NTS-17634-M	09 Apr 2014
NK/DH	Mohd Iqbal Wani	15421343K	NTS-17635-P	09 Apr 2014
NK/PTA	Amit Singh	15426090K	NTS-17636-X	09 Apr 2014
SEP/DVR	Pabon Bailung	15411495X	NTS-17637-A	09 Apr 2014
SEP/DVR	Vikas Sharma	15425007P	NTS-17638-H	09 Apr 2014

DV SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 102, dated 21st April 2015—The President is pleased to confirm the under mentioned AMC (Non Tech)/PC officers consequent on completion of the probationary period :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Pers No	Rank	Name	Date of Commission
NTR-16871-K	Capt	Roshan Singh Raghav	10 Apr 2012
NTR-16872-M	Capt	Tarun Singh Kushwaha	10 Apr 2012
NTR-16873-P	Capt	Praveen Prasad	10 Apr 2012
NTR-16874-X	Capt	Tony Augustine	10 Apr 2012
NTR-16875-A	Capt	Deepak G	10 Apr 2012
NTR-16876-H	Capt	Vijay Kumar	10 Apr 2012

SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

NTS-17618-P	Lt	Amarjit Singh	13 Apr 2013
NTS-17619-X	Lt	Thorve Vishal Baban	13 Apr 2013
NTS-17620-M	Lt	Subhranshu Mishra	13 Apr 2013
NTS-17621-P	Lt	Roju Joseph	13 Apr 2013
NTS-17622-X	Lt	Koneni Venkatramana	13 Apr 2013
NTS-17623-A	Lt	Soumya Ranjan Mishra	13 Apr 2013
NTS-17624-H	Lt	Raj Nath Yadav	13 Apr 2013
NTS-17625-L	Lt	Akhil Kumar Gurung	13 Apr 2013
NTS-17626-N	Lt	Patil Santosh	13 Apr 2013
NTS-17627-W	Lt	Anil Kumar	13 Apr 2013

DV SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 103, dated 22nd April 2015—The President is pleased to make the following notional promotion :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
LT COL TO COL (TS)

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16538L	Lt Col	Sudersanan Pillai G	10 Jan 2008

PAWAN KAPOOR
Maj Gen
Addl DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 104, dated 22nd April 2015—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
MAJOR TO LT COL

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16681-X	Major	Gukashankar J	07 Jan 2014
NTR-16709-M	Major	Alexander KT	04 Apr 2014
NTR-16710-F	Major	Sribatsha Pradhan	04 Apr 2014
NTR-16685-N	Major	Jasvinder Singh	04 Apr 2014
NTR-16686-W	Major	Vidyut Mukherjee	04 Apr 2014
NTR-16687-Y	Major	Hemant Kumar Tripathi	04 Apr 2014

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16688-F	Major	Anil Kumar	04 Apr 2014
NTR-16689-K	Major	Ravindra Upreti	04 Apr 2014
NTR-16750-H	Major	Yogesh H V	04 Apr 2014

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

MAJ TO LT COL

MS-14468Y	Maj	Vijay Prasad	17.02.14
MS-14546L	Maj	Pratiba Sharma	13.02.14
MS-14550N	Maj	Satinder Kaur Chauhan	17.02.14
MS-14572M	Maj	Gautam Kumar Goel	27.02.14
MS-14589A	Maj	Divya Sharma	20.03.14

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion	
			As Capt	As Major
NTS-17628Y	Lt	Nand Kishor Mishra	15 Feb 2010	15 Feb 2014

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

CAPT TO MAJOR

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16785-Y	Capt	Desh Raj Chandel	15 Feb 2014
NTR-16786-F	Capt	Dileep Kumar Shukla	15 Feb 2014
NTR-16787-K	Capt	Ramesh T	15 Feb 2014
NTR-16788-M	Capt	Surender Singh	15 Feb 2014
NTR-16789-P	Capt	Bhupendra Singh Bhati	15 Feb 2014
NTR-16790-K	Capt	Pradeep Kumar Singh	15 Feb 2014
NTR-16791-M	Capt	Narendra Singh Rawat	15 Feb 2014
NTR-16792-P	Capt	Goudappa Siddapur	15 Feb 2014
NTR-16793-X	Capt	Mahesh Mahto	15 Feb 2014
NTR-16794-A	Capt	Sahiduj Zaman	15 Feb 2014
NTR-16795-H	Capt	Shaikh Mujib	15 Feb 2014
NTR-16796-L	Capt	Amandeep Singh	15 Feb 2014
NTR-16797-N	Capt	Rakesh Kumar Sharma	15 Feb 2014
NTR-16798-W	Capt	Paul Sanchayan	15 Feb 2014

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16799-Y	Capt	Azad Khan	15 Feb 2014
NTR-16800-H	Capt	Amit Kumar	15 Feb 2014
NTR-16801-L	Capt	Chougule Santosh Sakharan	15 Feb 2014
NTR-16802-N	Capt	Anirban Choudhury	15 Feb 2014
NTR-16803-W	Capt	Sanjay Kumar	15 Feb 2014
NTR-16869-M	Capt	Mintu Kumar	15 Feb 2014
NTR-16870-F	Capt	Joyot Chattopadhyay	15 Feb 2014
NTR-16880-L	Capt	Pankaj Rai	15 Feb 2014

MAJ LAKSHMI PATHI (NTS-17549K NOW NTR-16888X) – 20 MAR 2013

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 May 2014 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

MAJ UBALE NARAYAN SARJERAO (NTS-17552K NOW NTR-16889A) – 20 MAR 2013

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 May 2014 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
CAPT TO MAJOR

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTS-17557-H	Capt	Meren Wati	15 Feb 2014
NTS-17558-L	Capt	Sonawane Vilas Shankar	15 Feb 2014
NTS-17560-H	Capt	Anuj Kumar	15 Feb 2014
NTS-17561-L	Capt	Jithesh Nelloli Keloth	15 Feb 2014
NTS-17563-W	Capt	Bhosale Satish Chandrasen	15 Feb 2014
NTS-17564-Y	Capt	Rupender Singh	15 Feb 2014
NTS-17565-F	Capt	Rohith CG	15 Feb 2014
NTS-17566-K	Capt	Sushil Kumar	15 Feb 2014
NTS-17568-P	Capt	Kailash Chand Samota	15 Feb 2014
NTS-17569-X	Capt	Sunil Ekka	15 Feb 2014
NTS-17570-M	Capt	Kamlesh Kumar	15 Feb 2014
NTS-17571-P	Capt	Mahender Kumar Balmiki	15 Feb 2014

PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
LT TO CAPT

NTR-16871-K	Lt	Roshan Singh Raghav	10 Apr 2014
NTR-16872-M	Lt	Tarun Singh Kushwaha	10 Apr 2014

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16873-P	Lt	Praveen Prasad	10 Apr 2014
NTR-16874-X	Lt	Tony Augustine	10 Apr 2014
NTR-16875-A	Lt	Deepak G	10 Apr 2014
NTR-16876-H	Lt	Vijay Kumar	10 Apr 2014

CAPT GIRISH G (NTS-17585P NOW NTR-16892A) – 07 APR 2012

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 19 Jan 2013 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

CAPT SANJAY SINGH RAGHAV (NTS-17582F NOW NTR-16891X) – 07 APR 2012

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 19 Jan 2013 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

CAPT SV NARASIMHA RAO CH (NTS-17579F NOW NTR-16890P) – 07 APR 2012

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 19 Jan 2013 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

CAPT UBALE NARAYAN SARJERAO (NTS-17552K NOW NTR-16889A) – 20 MAR 2009

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 02 Jan 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

CAPT LAKSHMI PATHI (NTS-17549K NOW NTR-16888X) – 20 MAR 2009

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 22 Aug 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

CAPT TO MAJ

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
MS-16242M	Capt	Gajendra Kumar Soni	14.08.2013
MS-16284Y	Capt	Patil Prashant Ramdas	25.09.2013
MS-16369P	Capt	Rohan PJ	29.12.2013
MS-16370K	Capt	Nimitha K Mohan	29.12.2013
MS-16372P	Capt	C Cecilia Xavier Jyothi	29.12.2013
MS-16374A	Capt	Ashish S Mallige	29.12.2013
MS-16379Y	Capt	Rajat Chauhan	30.12.2013
MS-16382Y	Capt	Navin Kumar Singh	30.12.2013
MS-16383F	Capt	Navdeep Banyal	30.12.2013
MS-16384K	Capt	Sritam Mohanty	30.12.2013
MS-16387K	Capt	Anil Kumar Dalal	30.12.2013
MS-16390X	Capt	Sreevastsa T	30.12.2013
MS-16393L	Capt	Niharika Mishra	30.12.2013
MS-16395W	Capt	Rahul Kumar Sharan	30.12.2013
MS-16411H	Capt	Diviyanshu Nadda	30.12.2013
MS-16413N	Capt	Man Singh	30.12.2014

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
MS-16420K	Capt	Sudarshan Kumar Arya	31.12.2013
MS-16424A	Capt	Satya Narayan Panda	01.01.2014
MS-16426L	Capt	Sunil Kumar Thakur	01.01.2014
MS-16427N	Capt	Swapna Sudha Manne	01.01.2014
MS-16435M	Capt	Savita Kumari Dinodia	02.01.2014
MS-16450F	Capt	Sunil Pradhan	05.01.2014
MS-16475N	Capt	Satish Kumar	09.01.2014
MS-16484P	Capt	Ranjan Anand	09.01.2014
MS-16489N	Capt	Kaur Navneet	10.01.2014
MS-16620A	Capt	Moseen Moneer	15.12.2013
MS-16713P	Capt	Muzafar Ahmad Bhat	17.12.2013
MS-16287M	Capt	Gaikwad Someshwar Narayan	28.07.2013
MS-16363N	Capt	Karthik D	03.09.2013
MS-16394N	Capt	Sunita Bisht	30.12.2013
MS-16400W	Capt	Anshu Mala Bhengra	30.12.2013
MS-16401Y	Capt	Ragini	30.12.2013
MS-16432Y	Capt	Jaspanpreet Singh	01.01.2014
MS-16434K	Capt	Pradeep KR	02.01.2014
MS-16440X	Capt	Alexander Joseph	04.01.2014
MS-16490H	Capt	Shikha Yadav	11.01.2014
MS-15549L	Capt	Sharad Juneja	21.02.2012
MS-15740M	Capt	Jitendra Gupta	25.04.2012
MS-15947M	Capt	Ruchi Hemdani	11.02.2014
MS-15963K	Capt	Tarapranav Bhattacharya	11.02.2014
MS-15966X	Capt	Abhinav Shrivastava	11.02.2014
MS-15968H	Capt	Vijay Singh	11.02.2014
MS-15978M	Capt	Hitender Singh Rao	11.02.2014
MS-15987N	Capt	Linto Manjaly	11.02.2014
MS-16059K	Capt	Mohit Agnihotri	26.02.2013
MS-16208M	Capt	Ajay Kumar	11.08.2013
MS-16238K	Capt	Sandhya R	13.08.2013
MS-16255K	Capt	Jayanta Chakravarty	19.02.2013
MS-16396Y	Capt	Ravinder Singh	30.12.2013
MS-16421M	Capt	Satwinder Singh	31.12.2013
MS-16430 N	Capt	Battula Sandeep Kumar	01.01.2014
MS-16452M	Capt	Abishek Banota	06.01.2014
MS-16454X	Capt	Kasukurthi Leelakanth	06.01.2014

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
MS-16460L	Capt	Sunny Makkar	07.01.2014
MS-16461N	Capt	Siddaramesh Gadgi	08.01.2014
MS-16472A	Capt	Abhay Singh	08.01.2014
MS-16481F	Capt	Tintu Seby	09.01.2014
MS-16494Y	Capt	Sravanthi Uppalapati	23.01.2014
MS-16495F	Capt	Sandip Kumar	26.01.2014
MS-16498P	Capt	Naresh Babu	29.01.2014
MS-16499X	Capt	Chunkikar Vijay Bhimrao	29.01.2014
MS-16500F	Capt	Saumya Deorari	02.02.2014
MS-16503P	Capt	Shabeen Kumar T	05.02.2014
MS-16513Y	Capt	Pawar Ramesh Santram	11.02.2014
MS-16744P	Capt	Sanjay	19.01.2011
MS-15948P	Capt	Moumita Ghatak	11.02.2014
MS-16005H	Capt	Deepak Agarwal	26.02.2013
MS-16012Y	Capt	Sukhdev Nitin Bhanudas	26.02.2013
MS-16476W	Capt	Jadhav Swapneel Sundarsing	09.01.2014
MS-16516M	Capt	Satpute Amarsingh Ranjeetrao	12.02.2014
MS-16519A	Capt	Nipun Gupta	15.02.2014
MS-16520P	Capt	Suraj Kumar S	15.02.2014
MS-16522A	Capt	Tarun Singh	16.02.2014
MS-16523H	Capt	Manoj Balachandran	17.02.2014
MS-16524L	Capt	Vishnu Priyan E	18.02.2014
MS-16525N	Capt	V Chandrakanth	18.02.2014
MS-16526W	Capt	Kajol Khosya	18.02.2014
MS-16527Y	Capt	Rahul Sandhu	19.02.2014
MS-16531F	Capt	TS Arjune	25.02.2014
MS-16532K	Capt	Vikash Singh	26.02.2014
MS-16535X	Capt	Yashveer Singh Sehrawat	09.03.2014
MS-16567A	Capt	Geeti Sharma	19.03.2014
MS-16847N	Capt	Datta Shravani Utpal	29.09.2013
MS-16876H	Capt	Rahul Gupta	22.05.2012
MS-16887P	Capt	Sandhya Ghodke	17.07.2012
MS-17036P	Capt	Jingar Ragnesh Kaushikprasad	29.12.2013

TO BE CAPT

MS-16903F	Lt	Alisha Raj	23.02.2013
MS-16906P	Lt	Thulasidharan VP	23.02.2013
MS-16788M	Lt	Lovin George	26.02.2012
MS-16915W	Lt	Sarvamitra Pathak	23.02.2013

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
MS-16577K	Lt	Tarush Sinha	06.08.2011
MS-16896W	Lt	Arun Parashar	16.05.2013
MS-16897Y	Lt	Arunjeet KK	23.02.2013
MS-16899K	Lt	Radhika Gupta	23.02.2013
MS-16900N	Lt	Vandana Rani V	23.02.2013
MS-16902Y	Lt	Shweta Bhardwaj	23.02.2013
MS-16904K	Lt	Shilpa Jauhari	23.02.2013
MS-16905M	Lt	Priyanka Rathore	23.02.2013
MS-16907X	Lt	Salil Jena	23.02.2013
MS-16910X	Lt	Vikas Gupta	23.02.2013
MS-16920F	Lt	Amit Kumar	23.02.2013
MS-16921K	Lt	Vivek Yadav	23.02.2013
MS-16922M	Lt	Abhinav Bhardwaj	23.02.2013
MS-16923P	Lt	Rupesh	23.02.2013
MS-16924X	Lt	Sandipan Shringi	23.02.2013
MS-16927L	Lt	Vivek	23.02.2013

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
LT TO CAPT

NTS-17602-K	Lt	Prakash Chandra Mishra	10 Apr 2014
NTS-17603-M	Lt	P Rajaraman	10 Apr 2014
NTS-17604-P	Lt	Satish Kumar	10 Apr 2014
NTS-17605-X	Lt	Shaji KP	10 Apr 2014
NTS-17606-A	Lt	Sujesh P	10 Apr 2014
NTS-17607-H	Lt	Shaik Reddy Ghouse	10 Apr 2014
NTS-17608-L	Lt	Tanmaya Kumar Mishra	10 Apr 2014
NTS-17609-N	Lt	Yashvir Singh	10 Apr 2014
NTS-17610-H	Lt	Ngajum Rida	10 Apr 2014
NTS-17611-L	Lt	Bikram	10 Apr 2014
NTS-17612-N	Lt	Gourav Rai	10 Apr 2014
NTS-17613-W	Lt	Rajeesh K	10 Apr 2014
NTS-17614-Y	Lt	Vivek Kumar	10 Apr 2014
NTS-17615-F	Lt	Mithuna SM	10 Apr 2014
NTS-17616-K	Lt	Subodh Kumar	10 Apr 2014
NTS-17617-M	Lt	Satendra Singh Sengar	10 Apr 2014

ARMY MEDICAL CORPS
SURG LT TO SURG LT CDR

<u>MS-15950M</u> (75996T)	Surg Lt	Jyoti Sharma	11.02.2014
<u>MS-15960W</u> (76014H)	Surg Lt	Shyam Kumar	11.02.2014
<u>MS-15993F</u> (76011A)	Surg Lt	Kuruva Yellaramudu	26.02.2013
<u>MS-16437X</u> (76045B)	Surg Lt	Khem Sagar Patel	04.01.2014
<u>MS-16441A</u> (76059K)	Surg Lt	Pothireddy Sreenivasulu	04.01.2014
<u>MS-16458N</u> (76052W)	Surg Lt	P Sweta Ratna	08.01.2014
<u>MS-16470P</u> (76060N)	Surg Lt	Patil Prashant	09.01.2014
<u>MS-16464F</u> (76049N)	Surg Lt	Raghavendra Sabarad	09.01.2014
<u>MS-16467P</u> (76047H)	Surg Lt	Archana Singh	09.01.2014

SURG LT CDR TO SURG CDR

<u>MS-14401A</u> (75799W)	Surg Lt Cdr	Umakanta Beriha	01.03.2013
<u>MS-15246W</u> (75922Z)	Surg Lt Cdr	Avishek Kumar	21.04.2014

SURG SUB LT TO SURG LT

<u>MS-17095F</u> (76209A)	Surg Sub Lt	Jince Mathew	01.03.2014
<u>MS-16775P</u> (76102H)	Surg Sub Lt	GSR Kishore Kumar	26.02.2012
<u>MS-16771Y</u> (76103K)	Surg Sub Lt	Ahmed Zaid Jamal	26.02.2012

DV SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 105, dated 23rd April 2015—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 08 Nov 2013 and to grant him Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 10/2001 as amended.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

TO BE LT

LT LAKSHMI PATHI (NTS-17549K NOW NTR-16888X) – 20 MAR 2007

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 09 Feb 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

LT UBALE NARAYAN SARJERAO (NTS-17552K NOW NTR-16889A) – 20 MAR 2007

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 18 OCT 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

LT SV NARASIMHA RAO CH (NTS-17579F NOW NTR-16890P) – 07 APR 2010

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 30 Apr 2011 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

LT SANJAY SINGH RAGHAV (NTS-17582F NOW NTR-16891X) – 07 APR 2010

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 30 Apr 2011 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

LT GIRISH G (NTS-17585P NOW NTR-16892A) – 07 APR 2010

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 30 Apr 2011 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

DV SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 106, dated 23rd April 2015—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army Service on attaining the age of superannuation :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Pers No	Rank	Name	Date of Birth	Date of Retirement
NTR-16538L	Col (TS)	Sudersanan Pillai G	28 Nov 1955	30 Nov 2011 (AN)

PAWAN KAPOOR
Maj Gen
Addl DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 107, dated 24th April 2015—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army Service on attaining the age of superannuation :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Pers No	Rank	Name	Date of Birth	Date of Retirement
NTR-16652H	Lt Col	Nagendra Rai	02 Oct 1957	31 Oct 2013 (AN)
NTR-16653L	Col (TS)	Jit Singh	03 Dec 1957	31 Dec 2013 (AN)
NTR-16654N	Col (TS)	Gorakh Nath Singh	04 Jan 1958	31 Jan 2014 (AN)
NTR-16585H	Lt Col	Surath Kumar Raj	23 Jan 1958	31 Jan 2014 (AN)
NTR-16583X	Lt Col	Balwan Singh	02 Feb 1958	28 Feb 2014 (AN)
NTR-16586L	Lt Col	PK Mukhopadhyay	01 Jan 1957	31 Dec 2012 (AN)
NTR-16649H	Lt Col	Gajraj Singh	04 Feb 1957	28 Feb 2013 (AN)
NTR-16657F	Lt Col	Dharamchand Sharma	07 Mar 1957	31 Mar 2013 (AN)

Pers No	Rank	Name	Date of Birth	Date of Retirement
NTR-16622L	Lt Col	Ram Kumar Singh Bhadauria	04 Jul 1958	31 Jul 2014 (AN)
NTR-16669W	Lt Col	K Nagabhushanam Naidu	15 Oct 1958	31 Oct 2014 (AN)
NTR-16606N	Lt Col	Chandrasekharan MK	02 Nov 1958	30 Nov 2014 (AN)

DV SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 108, dated 24th April 2015—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

In the Ministry of Defence Notification No. 352 dated 10 May 1996 published in the Gazette of India serial No. 24 dated 15 Jun 1996 under heading “Regular Army” Sub heading “ The Mechanised Infantry Regiment” below :—

For Arun Shanker Shukla (JC-418579F) 15 Jan 1996.

Read Arun Shanker Shukla (JC-418579F) 13 Jan 1996.

RAJEEV JAUHARI
Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015
www.dop.nic.in